

प्रेसविज्ञप्ति

24.07.2025

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय परिणाम

बैंक का वैश्विक कारोबार 10.25% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹ 13.45 लाख करोड़	निवल लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 23.69% की वृद्धि ₹ 2973 करोड़	एनएनपीए वर्ष-दर-वर्ष 21 बीपीएस की गिरावट के साथ 0.18% रहा।	इक्विटी पर प्रतिलाभ वर्ष-दर-वर्ष 50 बीपीएस की वृद्धि के साथ 20.26% रहा।
--	--	---	---

प्रमुख विशेषताएं (जून 2024 के सापेक्ष जून 2025 को समाप्त तिमाही)

- निवल लाभ जून 2024 में ₹ 2403 करोड़ के सापेक्ष जून 2025 में 23.69% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹ 2973 करोड़ रहा।
- परिचालन लाभ जून 2024 में ₹ 4502 करोड़ के सापेक्ष जून 2025 में 5.97% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹ 4770 करोड़ रहा।
- निवल ब्याज आय जून 2024 में ₹ 6178 करोड़ के सापेक्ष जून 2025 में 2.93% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹ 6359 करोड़ रही।
- आस्तियों पर प्रतिलाभ (RoA) जून 2024 में 1.20% के सापेक्ष जून 2025 में 14 बीपीएस की वृद्धि के साथ 1.34% हो गया।
- इक्विटी पर प्रतिलाभ (RoE) जून 2024 में 19.76% के सापेक्ष जून 2025 में 50 बीपीएस की वृद्धि के साथ 20.26% हो गया।
- अग्रिमों पर प्रतिफल (YoA) जून 2025 में 8.58% एवं निवेश पर प्रतिफल (Yol) जून 2025 में 6.96% रहा।
- सकल अग्रिम जून 2024 में ₹ 539123 करोड़ के सापेक्ष जून 2025 में 11.50% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹ 601147 करोड़ रहा।
- रैम (खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई) अग्रिम जून 2024 में ₹ 313301 करोड़ के सापेक्ष जून 2025 में 15.93% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹ 363221 करोड़ हो गया।
- सकल घरेलू अग्रिम में रैम के योगदान में 65.34% की वृद्धि हुई। खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 16.56%, 16.40% एवं 14.45% की वृद्धि हुई। गृह ऋण (बंधक सहित) में वर्ष-दर-वर्ष 10.65% की वृद्धि हुई।
- प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम एएनबीसी के प्रतिशत के अनुसार जून 2025 में विनियामक आवश्यकता 40% के सापेक्ष 44.73% रहा, जो वृद्धि के साथ ₹211203 करोड़ है।
- कुल जमा राशि जून 2024 में ₹ 681183 करोड़ के सापेक्ष जून 2025 में वर्ष-दर-वर्ष 9.26% की वृद्धि के साथ ₹ 744289 करोड़ हो गई।

- देशी कासा (CASA) अनुपात 30 जून 2025 को **38.97%** रहा।
- सीडी अनुपात यथास्थिति 30 जून 2025 को **80.77%** रहा।
- सकल अनर्जक आस्तियां जून 2024 में **3.77%** के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष **76 बीपीएस** घटकर जून 2025 में **3.01%** हो गई, जून 2024 में **0.39%** के सापेक्ष एनएनपीए **21 बीपीएस** घटकर जून 2025 में **0.18%** हो गई।
- प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर, टीडब्ल्यूओ सहित) जून 2024 में **96.66%** के सापेक्ष जून 2025 में वर्ष-दर-वर्ष **154 बीपीएस** वृद्धि के साथ **98.20 %** रहा।
- स्लिपेज अनुपात जून 2024 में **1.50%** के सापेक्ष जून 2025 में **0.94%** तक सीमित रहा।
- क्रेडिट लागत जून 2024 में **0.71%** के सापेक्ष जून 2025 में वर्ष-दर-वर्ष **43 बीपीएस** सुधार के साथ **0.28%** रहा।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात **17.80%** रहा। जून 2025 में सीईटी-1 **15.26%** एवं टियर 1 पूंजी **15.74%** रहा।
- प्रति शेयर आय (ईपीएस) जून 2024 में ₹ **71.37** के सापेक्ष जून 2025 में **23.69%** बढ़कर ₹ **88.28** हो गई।

प्रमुख विशेषताएं (मार्च 2025 के सापेक्ष जून 2025 को समाप्त तिमाही)

- निवल लाभ मार्च 2025 के ₹ **2956 करोड़** के सापेक्ष जून 25 में बढ़कर ₹ **2973 करोड़** हो गया।
- क्रेडिट लागत मार्च 2025 में **0.81%** के सापेक्ष जून 2025 में तिमाही-दर- तिमाही **53 बीपीएस** सुधार के साथ **0.28%** रहा।
- निवल ब्याज मार्जिन (NIM) देशी जून 25 में **3.35%** रहा।
- लागत आय अनुपात जून 2025 में **45.78%** रहा।
- प्रति शेयर बही मूल्य मार्च 2025 में ₹ **423.39** के सापेक्ष जून 2025 में बढ़कर ₹ **448.29** हो गया।
- सकल अनर्जक आस्तियां मार्च 2025 में **3.09%** के सापेक्ष तिमाही -दर- तिमाही **8 बीपीएस** घटकर जून 2025 में **3.01%** हो गई, मार्च 2025 में **0.19%** के सापेक्ष एनएनपीए **1 बीपीएस** घटकर जून 2025 में **0.18%** हो गई।

नेटवर्क:

- बैंक की 5909 देशी शाखाएँ (3 डीबीयू सहित) हैं, जिनमें से 1993 ग्रामीण, 1560 अर्ध-शहरी, 1185 शहरी और 1171 मेट्रो श्रेणी की शाखाएँ हैं। बैंक की 3 विदेशी शाखाएँ और 1 आईबीयू है।
- बैंक के 5466 एटीएम एवं बीएनए और 15080 बिज़नेस कॉरस्पोंडेंट हैं।

डिजिटल बैंकिंग:

- वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में डिजिटल चैनलों के माध्यम से ₹57,955 करोड़ का कारोबार किया गया है। अब तक कुल 132 डिजिटल यात्राएँ, उपयोगिताएँ और प्रक्रियाएँ शुरू की गई हैं।
- मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष-दर-वर्ष 15% बढ़कर 2.02 करोड़ हो गई है।
- यूपीआई उपयोगकर्ताओं और नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 23% और 6% की वृद्धि के साथ क्रमशः 2.29 करोड़ और 1.16 करोड़ तक पहुँच गई है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं की संख्या में क्रमशः 4% और 19% की वृद्धि हुई है।

पुरस्कार और प्रशस्तियाँ:

- इंडियन बैंक, वित्त मंत्रालय की उन्नत पहुँच और सेवा उत्कृष्टता पहल के तहत EASE 7.0 पुरस्कारों में समग्र डेटा गुणवत्ता अधिमान्यता श्रेणी में विजेता रहा।
- इंडियन बैंक ने डिजिटल भुगतान में उत्कृष्ट प्रदर्शन (पीएसबी) के लिए वित्त मंत्रालय से डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2023-24 में तीसरा स्थान प्राप्त किया। बैंक को विशेष उल्लेखनीय श्रेणी में दुर्गम भौगोलिक और दूरस्थ क्षेत्रों में मर्चेन्ट ऑनबोर्डिंग (पीएसबी) के लिए भी पुरस्कार दिया गया है।
- इंडियन बैंक की डिजिटल परिवर्तन यात्रा "प्रोजेक्ट वेव" और "एसएमए कलेक्शन प्रोक्लिविटी प्रेडिक्टर" के लिए बैंक को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला। "एसएमए कलेक्शन प्रोक्लिविटी प्रेडिक्टर" मॉडल को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के लिए डिफॉल्ट की संभावना का अनुमान लगाने और लक्षित संग्रहण यात्रा की रूपरेखा तैयार करके जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है।
- तमिलनाडु लीडरशिप अवार्ड्स 2024 में बैंक को संगठनात्मक श्रेणी में "सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक" पुरस्कार से सम्मानित किया गया और बैंक के एमडी एवं सीईओ को "वर्ष का सीईओ" पुरस्कार प्रदान किया गया।

हमारा फोकस

इंडियन बैंक डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक मजबूत पूँजी आधार और बेहतर आस्ति गुणवत्ता के साथ, हम समावेशी आर्थिक विकास के समर्थन के लिए बेहतर स्थिति में हैं। हमारा फोकस सुलभ और प्रौद्योगिकी-सक्षम बैंकिंग सॉल्युशंस के माध्यम से एमएसएमई, किसानों और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।